

**थाना भोट:- चोरी की दो मोटर साईकिल व बुलेट मोटर साईकिल के पार्ट्स के साथ 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर डा0 संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 27-08-2021 को थाना भोट पुलिस द्वारा कोयली बॉर्डर पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चौकिंग के दौरान चोरी की दो मोटर साईकिल व एक प्लास्टिक के कट्टे में बन्द बुलेट मोटर साईकिल के पार्ट्स सहित 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

- 1-मुकीम पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मौहल्ला मनिहारान कस्बा व थाना टाण्डा, रामपुरा(उम्र-करीब 24 वर्ष)
- 2-मौहम्मद वसीम पुत्र मौहम्मद शकील निवासी काजीपुरा कस्बा व थाना टाण्डा, रामपुरा (उम्र-करीब 22 वर्ष)
- 3-मौहम्मद शमीम उर्फ भूरा पुत्र हाजी शरीफ निवासी काजीपुरा कस्बा व थाना टाण्डा, रामपुरा (उम्र-करीब 22 वर्ष)

**बरामदगी:-**

- 01-एक मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस बिना नम्बर,
- 02-एक मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस जिस पर नं0-यूपी 22 के 917(अधुरा नम्बर) लिखा है,
- 03-रॉयल इनफील्ड (बुलेट) रंग सिल्वर के पार्ट्स (टंकी, साईड के दो बॉक्स जिस पर क्लासिक 350 लिखा हुआ, साईड जाल, ब्रेक पैडल, फुट रैस्ट, मेन स्टैण्ड, गियर, पैडल, डिस ब्रेक कवर आदि)

**पूछताछ:-**

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि साहब हम लोग रामपुर व आस-पास के जनपदों के अलग-अलग स्थानों से मोटर साईकिल चोरी करते हैं और चलते-फिरते लोगों को बेच देते हैं। कभी-कभी मोटर साईकिलों के अलग-अलग पार्ट्स भी निकालकर बेच देते हैं। बिना नम्बर स्पलेण्डर प्लस मोटर साईकिल हमने जनपद मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र से चोरी की थी। इसके अलावा दूसरी मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस जिस पर नं0-यूपी 22 के 917 (अधुरा नम्बर) लिखा है, को थाना गंज क्षेत्र से तथा बुलेट मोटर साईकिल को थाना सिविल लाइन जनपद-रामपुर क्षेत्र से चोरी की थी जिसे हम काटकर पार्ट्स बेचने के लिए जा रहे थे कि आपने हमें पकड़ लिया गया।

**आपराधिक इतिहास:-**

गिरफ्तार अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**कार्यवाही:-**

मु0अ0सं0-141/21 धारा 379,413,414,420 भादवि व 41/102 सीआरपीसी बनाम मुकीम आदि 03 नफर पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

श्री बृजेश सिंह थाना प्रभारी भोट, रामपुर मय टीम ।



थाना भोट :- चोरी की दो मोटर साईकिल व बुलेट मोटर साईकिल के पार्ट्स के साथ 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार।